



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 361]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 28, 2019/माघ 8, 1940

No. 361]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 28, 2019/MAGHA 8, 1940

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2019

का.आ. 474(अ).—अंतरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 के अधीन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 465 (अ.), तारीख 24 फरवरी, 2010 द्वारा वंसंधारा जल विवाद अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकरण कहा गया है) का अंतरराज्यिक वंसंधारा नदी और उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए गठन किया गया था;

और, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उक्त अधिकरण से, तीन वर्ष की अवधि के भीतर, तारीख 23 फरवरी, 2013 को या उससे पूर्व अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय देना अपेक्षित था;

और, उक्त अधिकरण ने रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि को, 23 फरवरी, 2013 से एक वर्ष की और अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था;

और, केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्यांक का.आ. 436 (अ.), तारीख 22 फरवरी, 2013 द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि को 23 फरवरी, 2014 तक एक वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारित कर दिया था;

और, ओडिशा सरकार ने 2006 की रिट याचिका (सिविल) संख्यांक 443 में अंतर्वर्ती आवेदन संख्यांक 2013 का 8 द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय से केन्द्रीय सरकार को अधिकरण के गठन की तारीख 17 सितम्बर, 2012 से संगणना का निर्देश देने का अनुरोध किया;

और, माननीय उच्चतम न्यायालय ने तारीख 13 दिसंबर, 2013 को मामले की सुनवाई की और यह आदेश पारित किया कि क्योंकि अधिकरण ने 17 सितंबर, 2012 से कार्य करना प्रारंभ किया था इसलिए उस तारीख को उक्त अधिनियम की

धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन यथा उपबंधित तीन वर्ष की अवधि की संगणना के प्रयोजन के लिए वंसधारा जल विवाद अधिकरण के गठन की प्रभावी तारीख के रूप में समझा जाएगा;

और, केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्यांक का.आ. 778 (अ.), तारीख 14 मार्च, 2014 द्वारा यह विनिश्चय किया कि उक्त अधिकरण के गठन की प्रभावी तारीख 17 सितंबर, 2012 होगी और तदनुसार उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन वंसधारा जल विवाद अधिकरण द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने के लिए तीन वर्ष की अवधि 17 सितंबर, 2012 से प्रारंभ होगी;

और, केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2581 (अ.), तारीख 18 सितंबर, 2015 द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि को 17 सितंबर, 2015 से एक वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारित कर दिया था;

और, केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2971 (अ.), तारीख 16 सितंबर, 2016 द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि को 17 सितंबर, 2016 से एक वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारित कर दिया था;

और, उक्त अधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय तारीख 13 सितंबर, 2017 को प्रस्तुत कर दिया था;

और, उड़ीसा राज्य ने तारीख 11 दिसंबर, 2017 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन उक्त अधिकरण को और निर्देश किया तथा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिकरण को तारीख 12 दिसंबर, 2017 को और निर्देश किया तथा उक्त अधिकरण ने 10 दिसंबर, 2017 को या उससे पहले एक वर्ष की अवधि के भीतर अपनी अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी;

और, अब उक्त अधिकरण ने अपनी अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि 11 दिसंबर, 2018 से एक वर्ष के लिए और बढ़ाने का अनुरोध किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिकरण द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को तारीख 11 दिसंबर, 2018 से एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाती है।

[फा. सं. 18/3/2013-बी.एम.]

टी. राजेस्वरी, अपर सचिव

**MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND
GANGA REJUVENATION**

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2019

S.O. 474(E).—Whereas, the Vansadhara Water Disputes Tribunal (hereinafter called the said Tribunal) was constituted on the 24th February, 2010 *vide* notification number S.O. 465 (E), dated the 24th February, 2010 under section 4 of the Inter-State River Water Disputes, Act, 1956 (33 of 1956)(hereinafter called the said Act) for the adjudication of the water disputes regarding Inter-State river Vansadhara, and river valley thereof;

And whereas, the said Tribunal was required to submit its report and decision under sub-section (2) of section 5 of the said Act within a period of three years, on or before the 23rd February, 2013 ;

And whereas, the said Tribunal had requested to extend the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from 23rd February, 2013;

And whereas, the Central Government *vide* notification number S.O.436 (E), dated the 22nd February, 2013, had extended the period of submission of report and decision for a further period of one year with upto 23rd February, 2014;

And whereas, the Government of Odisha approached the Hon'ble Supreme Court *vide* Interlocutory Application number 8 of 2013 in Writ Petition (C) number 443 of 2006 to direct the Central Government to reckon the date of constitution of the Tribunal as 17th September, 2012 ;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court heard the matter and passed the order on 13th December, 2013 that as the Tribunal started functioning with effect from 17th September, 2012, that date be considered as the effective date of the constitution of the Vansadhara Water Disputes Tribunal for the purpose of calculating the period of three years as provided under sub-section (2) of section 5 of the said Act;

And whereas, the Central Government *vide* notification number S.O.778 (E), dated the 14th March, 2014, had decided that the effective date of constitution of said Tribunal shall be 17th September, 2012, and accordingly, under the provisions of sub-section (2) of section 5 of the said act, the period of three years for submission of report and decision by the Vansadhara Water Disputes Tribunal shall commence from the 17th September, 2012;

And whereas, the Central Government *vide* notification number S.O. 2581 (E), dated the 18th September, 2015, had extended the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from the 17th September, 2015 ;

And whereas, the Central Government *vide* notification number S.O. 2971(E), dated the 16th September, 2016, had extended the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from the 17th September, 2016;

And whereas the said Tribunal submitted its report and decision under sub-section (2) of section 5 of the said Act on the 13th September, 2017;

And whereas the State of Odisha made further reference to the said Tribunal under the proviso to sub-section (3) of section 5 of the said Act on the 11th December, 2017 and the Central Government made further reference to the said Tribunal on the 12th December, 2017 and the Tribunal had to submit its further report within a period of one year on or before the 10th December, 2018;

And whereas, the said Tribunal has now requested to extend the period of submission of further report for a period of one year with effect from the 11th December, 2018;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 5 of the said Act, the Central Government hereby extends the period of submission of further report by the said Tribunal for a period of one year with effect from the 11th December, 2018.

[F.No.18/3/2013-BM]

T. RAJESWARI, Addl. Secy.